

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 जुलाई 2018—आषाढ़ 18, शक 1940

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. एफ-53-एनएन-01-2018-पांच-501.—राज्य के नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2018 हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:—

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन.	22(क)	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21(क)	18-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	19-7-2018 (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	21-7-2018 (शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.	30, 31	21-7-2018 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	3-8-2018 (शुक्रवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ड)	7-8-2018 (मंगलवार)	प्रातः 9:00 बजे से.

हस्ता./-  
(दीपक सक्सेना)  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. एफ-53-एनएन-01-2018-पांच-502.—राज्य के नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2018 (पूर्वाद्ध) हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:—

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21,22	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन.	22(क)	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	21(क)	18-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	19-7-2018* (गुरुवार)	प्रातः 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	21(ग)	21-7-2018 (शनिवार)	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक.
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आंवटन.	30, 31	21-7-2018 (शनिवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21(घ)	3-8-2018 (शुक्रवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21(ङ)	7-8-2018 (मंगलवार)	प्रातः 9:00 बजे से.

हस्ता./-  
( दीपक सक्सेना )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

क्र. एफ-53-एनएन-01-2018-पांच-503.—राज्य के नगर परिषद् सिरमोर जिला रीवा नगर परिषद् करही पांडल्याखुर्द जिला खरगौन एवं नगर परिषद् लांजी जिला बालाघाट के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन वर्ष 2018 हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:—

क्र.	कार्यवाही	सम्बंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	11-7-2018 (बुधवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	11-7-2018 (बुधवार)	उपरोक्तानुसार
3	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	11-7-2018 (बुधवार)	उपरोक्तानुसार
4	मतदान	75-ग (एक)	3-8-2018 (शुक्रवार)	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक.
7	मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	75-ग (दो) 75-ज	7-8-2018 (मंगलवार)	प्रातः 9: 00 बजे से.

हस्ता./-  
( दीपक सक्सेना )  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.